

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1969/पौष 11, 1890
 No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1969/PAUSA 11, 1890

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st January 1969

S.O. 69.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit, elected to that House from 55-Phulpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 14th February, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/UP-HP/3/68(1).]

S.O. 70.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 55-Phulpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/3/68(1), dated the 1st January, 1969.—

- (a) the 8th January, 1969, as the last date for making nominations;
- (b) the 9th January, 1969, as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 11th January, 1969, as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 5th February, 1969, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
and
- (e) the 14th February, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/3/68(2).]

S.O. 71.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 8-00 a.m. to 5-00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary be taken for the election to the House of the People from 55-Phulpur parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/3/68(1), dated the 1st January, 1969.

[No. 100/UP-HP/3/68(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1969

एस० ओ० 72.—यतः उत्तर प्रदेश राज्य में के 55-फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए, उक्त अधिनियम तथा तबचीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, एक व्यक्ति 14 फरवरी, 1969 से पूर्व निर्वाचित करे :

[संख्या 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68(1).]

एस० ओ० 73.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68(1), दिनांक 1 जनवरी, 1969 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य में के 55-फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख, 8 जनवरी, 1969;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख, 9 जनवरी, 1969;
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख, 11 जनवरी, 1969;
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा, 5 फरवरी, 1969; तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा, 14 फरवरी, 1969; एतद् द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68(2).]

एस० ओ० 74.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/उ० प्र०-लो० सं०/3/68(1), दिनांक 1 जनवरी, 1969 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 55-फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन

के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो तो, होगा ।

[संख्या 100/उ० प्र०-लो० स०/3/68(3).]

आदेश द्वारा,

ए० एन० सैन, सचिव ।

